



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29042025-262754
CG-MH-E-29042025-262754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]
No. 316]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947

भारतीय स्टेट बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 23 अप्रैल, 2025

सं. ओपी एंड एसपी /एसके/2025-26/04—भारतीय स्टेट बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श के पश्चात और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 में और संशोधन के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टेट बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2025 है।
(2) ये दिनांक 01 मई 2025 से प्रभावी होंगे।
2. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 47क में -
(i) उप-विनियम (1) में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थातः -

"सारणी

क्र.सं. (1)	स्थानीय प्रधान कार्यालय (2)	प्रादेशिक क्षेत्र (3)
1.	अमरावती	आंध्र प्रदेश राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी के अंतर्गत यनम जिला।
2.	बेंगलूरु	कर्नाटक राज्य।
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य।
4.	भुवनेश्वर	ओडिशा राज्य।
5.	चंडीगढ़	हरियाणा राज्य (फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, नूह और पलवल जिलों को छोड़कर), हिमाचल प्रदेश, पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख।
6.	चेन्नई	तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (माहे और यनम जिलों को छोड़कर)
7.	गांधीनगर	गुजरात राज्य [गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात में स्थित भारतीय स्टेट बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रीय बैंकिंग इकाई को छोड़कर] और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव।
8.	गुवाहाटी	असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य।
9.	हैदराबाद	तेलंगाना राज्य।
10.	जयपुर	राजस्थान राज्य।
11.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
12.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य और पूर्वी क्षेत्र जैसा कि उप-विनियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट है।
13.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों को छोड़कर)।
14.	मुंबई मेट्रो	महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले और गोवा राज्य।
15.	नई दिल्ली	उत्तराखंड राज्य, उप-विनियम (2) के खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य का पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा राज्य में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, नूह और पलवल जिले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
16.	पटना	बिहार और झारखंड राज्य।
17.	तिरुवनंतपुरम	केरल राज्य, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप और संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी के अंतर्गत माहे जिला।"

(ii) उप-विनियम (2) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:

“उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में इस राज्य के निम्नलिखित जिले शामिल होंगे, अर्थात्, आगरा, अलीगढ़, बागपत, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली।”

बिनोद कुमार मिश्रा, उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) और कॉर्पोरेट विकास अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./48/2025-26]

टिप्पणी: - मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड 1 की अधिसूचना सं. डी.बी.डी.1246/एस.बी.15-55 तारीख 21 जून, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. ओआरजी/ यूकेडी/2018-19/564 (ई) के द्वारा संशोधित किए गए थे, जो 1 अप्रैल, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III- खंड 4 में प्रकाशित की गई थी।

STATE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd April, 2025

No. OP & SP/SK/2025-26/04—In exercise of the powers conferred by section 50 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), the Central Board of Directors of the State Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the State Bank of India General Regulations, 1955, namely:-

1. (1) These regulations may be called the State Bank of India General (Amendment) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of May 2025.
2. In the State Bank of India General Regulations, 1955, in regulation 47A,—
- (i) in sub-regulation (1), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“TABLE

Sl. No. (1)	Local head office (2)	Territorial Areas (3)
1.	Amaravati	The State of Andhra Pradesh and Yanam district under the Union territory of Puducherry.
2.	Bengaluru	The State of Karnataka.
3.	Bhopal	The States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.
4.	Bhubaneswar	The State of Odisha.
5.	Chandigarh	The States of Haryana (excluding the districts of Faridabad, Gurugram, Sonapat, Nuh and Palwal), Himachal Pradesh and Punjab and the Union territories of Chandigarh, Jammu and Kashmir and Ladakh.
6.	Chennai	The State of Tamil Nadu and the Union territory of Puducherry (excluding districts of Mahe and Yanam).
7.	Gandhinagar	The State of Gujarat [excluding the State Bank of India International Financial Services Centre Banking Unit located at Gujarat International Finance Tec-City (Gift City), Gandhinagar, Gujarat] and the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
8.	Guwahati	The States of Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Arunachal Pradesh.
9.	Hyderabad	The State of Telangana.
10.	Jaipur	The State of Rajasthan.
11.	Kolkata	The States of West Bengal and Sikkim and the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands.
12.	Lucknow	The Central and Eastern Zones of the State of Uttar Pradesh as specified in clause (a) of sub-regulation (2).
13.	Maharashtra	The State of Maharashtra (excluding the districts of Mumbai City, Mumbai Suburban, Thane, Palghar, Raigad, Sindhudurg and Ratnagiri).
14.	Mumbai Metro	The districts of Mumbai City, Mumbai Suburban, Thane, Palghar, Raigad, Sindhudurg and Ratnagiri in the State of Maharashtra and the State of Goa.
15.	New Delhi	The State of Uttarakhand, the Western Zone of the State of Uttar Pradesh as specified in clause (b) of sub-regulation (2), districts

		Faridabad, Gurugram, Sonipat, Nuh and Palwal in the State of Haryana and the National Capital territory of Delhi.
16.	Patna	The States of Bihar and Jharkhand.
17.	Thiruvananthapuram	The State of Kerala, the Union territory of Lakshadweep and Mahe district under the Union territory of Puducherry.”

(ii) in sub-regulation (2), for clause (b), the following shall be substituted, namely:—

“(b) The Western Zone of the State of Uttar Pradesh shall consist of the following districts of that State, namely, Agra, Aligarh, Baghpat, Bulandshahar, Etah, Firozabad, GautamBuddha Nagar, Ghaziabad, Hapur, Hathras, Kasganj, Mainpuri, Mathura, Meerut, Muzaffarnagar, Saharanpur and Shamli.”

BINOD KUMAR MISHRA, Dy. Managing Director (HR) and Corporate Development Officer

[ADVT.-III/4/Exty./48/2025-26]

NOTE:—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, vide Notification No. D.B.D.1246/S.B.15-55, dated the 21st June, 1955 and was last amended vide notification No. ORG/UKD/2018-19/564(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, dated the 1st April 2019.